

## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

**\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- मई 10, 2021\***

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग\***- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 186 वाहनों का चालान किया गया।

**\*कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\***- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 03 व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व मास्क न लगाने वाले कुल- 16 व्यक्तियों से 16000/- रुपये शमन शुल्क वसुला गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\***- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही\***-

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\***- अभियुक्त बलिराम पुत्र श्रीप्रसाद नि0 वार्ड न0 13 महेन्द्र नगर थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 59 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-81/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\***- अभियुक्तगण **1-** रामनिवास पुत्र जमुना नि0 डरहिया थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-183/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम **2-** राधे पुत्र विदेश्वरी नि0 सिरौली थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 17 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-184/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*थाना श्यामदेउरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्ता तेतरा देवी पत्नी प्रेमचंद केवट नि0 हरपुर तिवारी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-92/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण\*-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-13 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

**\*जनपद में 09/10-05-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 22 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी\* ।**